



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 36

मार्च 19, 2021

संख्या 12

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

मद	2020	2021		घट - बढ़	
	13 मार्च	5 मार्च	12 मार्च	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2373681	2816709	2834479	17770	460797
1.1 संचलन में नोट	2373668	2816693	2834462	17769	460794
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	15	16	1	3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	101	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	551020	510330	461182	-49148	-89838
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6781	5415	5237	-178	-1544
2.6 अन्य बैंक	35028	29587	30035	448	-4993
2.7 अन्य	418077	973586	1015374	41788	597298
3 अन्य देयताएं	1314453	1364217	1359287	-4930	44834
कुल देयताएं / आस्तियां	4699184	5699987	5705737	5750	1006553
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3336343	3966145	3964660	-1485	628317
2 सोना	218050	249807	251515	1708	33464
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	996505	1320420	1329578	9158	333073
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	20553	-	-	-	-20553
4.2 राज्य सरकारें	6154	12114	8522	-3592	2368
4.3 नाबार्ड	0	26877	26652	-225	26652
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	105035	84624	84616	-8	-20419
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	4084	27750	27443	-307	23359
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	1964	1964	1964	0	0
7 अन्य आस्तियां	10496	10286	10788	502	292

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	12 मार्च 2021 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4236881	582037	215	1739	634725	104231	670900	100146
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3938366	541022	-1375	1409	604551	98809	627960	93665
1.2 स्वर्ण	251515	34551	1708	336	20988	3973	33464	5085
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10928	1501	-64	-4	128	69	206	52
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	36072	4963	-52	-2	9059	1380	9271	1344

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

12 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹449720 करोड़	2021												
	27 फरवरी	28 फरवरी	1 मार्च	2 मार्च	3 मार्च	4 मार्च	5 मार्च	6 मार्च	7 मार्च	8 मार्च	9 मार्च	10 मार्च	11 मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	452485	446196	442584	440791	440112	439021	510330	442112	438806	431080	431711	481993	450567
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.6	99.2	98.4	98.0	97.9	97.6	113.5	98.3	97.6	95.9	96.0	107.2	100.2

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	26 फरवरी 2021 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	192920	549	51235	-41428	66018	-35142
1.2 बैंकों से उधार	39016	-2375	-2227	-24985	-3872	-38216
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17673	550	-1973	1509	3091	4507
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14933821	152476	752496	1366329	1095617	1607553
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.0	6.0	10.1	9.0	12.1
2.1.1 मांग	1703328	72329	-51361	86325	158323	243402
2.1.2 मीयादी	13230494	80146	803858	1280005	937294	1364151
2.2 उधारियां	244737	1253	-69884	-64702	-57057	-63633
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	658538	39429	40822	54863	50306	74070
3 रिज़र्व बैंक से उधार	84651	31	-126502	-200972	-44078	30465
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	553692	3405	-8190	-69754	67480	-78701
4.1 उपलब्ध नकदी	91536	6053	7484	4276	13799	9176
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	462156	-2648	-15674	-74030	53681	-87877
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	141581	3059	-56996	-13821	-55473	-24472
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7758	-4551	-14013	-12516	-8064	-10482
5.3 बैंकों को अग्रिम	17828	-115	-2147	-12703	-2092	-9660
5.4 अन्य आस्तियां	23928	-91	7301	-30104	10102	-26252
6 निवेश	4461377	-8201	397231	714028	369146	683090
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.2	11.7	19.1	10.8	18.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4460179	-7998	390058	721483	361105	691120
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1197	-202	7173	-7455	8040	-8030
7 बैंक ऋण	10774815	71273	333144	403954	584414	669948
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	3.4	3.9	6.1	6.6
7 क.1 खाद्य ऋण	75206	-81	23986	23442	9952	9610
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10699609	71355	309158	380513	574462	660339
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10586921	63096	365938	437412	600453	698989
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	26275	3523	-760	617	2564	812
7 ख.3 भुनाए गए	112200	1443	-17955	-33483	-8103	-28141
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	18675	2672	-3349	-1783	-1631	-2564
7 ख.5 भुनाए गए	30745	539	-10730	1191	-8869	853

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2020	2021				
	13 मार्च	12 फरवरी	19 फरवरी	26 फरवरी	5 मार्च	12 मार्च
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.73	3.72	..	3.71	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	76.02	72.41	..	72.15	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	48.18	27.41	..	29.56	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.45	30.24	..	29.87	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	54.09	59.50	..	52.26	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.15/9.40	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.40/7.90	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	5.90/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	4.95	3.25	3.22	3.25	3.18	3.19
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.87	3.33	3.18	3.17	3.22	3.25
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.02	3.58	3.52	3.48	3.48	3.48
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.96	3.74	3.71	3.70	3.72	3.85
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.76	6.08	6.24	6.34	6.34	6.38
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.07	72.80	72.73	73.04	72.76	72.68
भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.96	88.29	87.61	88.80	86.99	86.88
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	4.86	4.12	4.21	5.59	5.36	5.78
3-माह	4.21	5.88	5.77	5.59	5.50	5.45
6-माह	4.02	5.47	5.39	5.19	5.18	5.17

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2020		2021	
	31 मार्च	26 फरवरी	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18563933	143831	0.8	1026960	6.7	1763970	10.5	1405004	9.3	2104906	12.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2735013	-10489	-0.4	203217	9.9	385264	16.4	227514	11.2	479586	21.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1824670	71584	4.1	-47643	-2.9	86977	5.0	163056	11.5	245800	15.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13959477	81246	0.6	868570	7.4	1285461	10.1	1007484	8.7	1369304	10.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	44774	1491	3.4	2816	8.9	6267	16.3	6950	25.2	10216	29.6
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5770699	-81497	-1.4	595414	13.6	810337	16.3	453877	10.0	786795	15.8
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1064827	-74810	-7.5	188588	18.9	72635	3.8	76477	10.0	74288	9.7
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4705872	-6686	-0.1	406826	11.3	737702	18.6	377400	10.4	712507	17.8
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11433792	72395	0.6	376726	3.6	395147	3.6	639540	6.3	674347	6.3
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	8625	210	1.6	-11584	-8.8	-4541	-3.4	-4090	-3.0	4846	3.6
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11425167	72185	0.6	388310	3.7	399688	3.6	643630	6.4	669500	6.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4584438	44578	1.0	610828	19.9	783401	20.6	706656	23.8	902769	24.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26747	-	-	427	1.7	399	1.5	473	1.8	432	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रुतर देयताएं	3026427	3251742	-108355	-3.2	556436	22.8	225316	7.4	395542	15.2	259436	8.7
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयताएं	1378342	1410269	-7132	-0.5	156084	14.7	31927	2.3	68021	5.9	195390	16.1

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	समाह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2020		2021	
	31 मार्च	12 मार्च	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3403459	-28859	-0.8	258505	9.3	373752	12.3	264522	9.6	374472	12.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	2447312	2861209	17769	0.6	263212	12.3	413898	16.9	258449	12.1	461227	19.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	543888	496454	-48878	-9.0	-9140	-1.5	-47434	-8.7	-2339	-0.4	-96375	-16.3
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	45796	2250	5.2	4433	14.0	7289	18.9	8412	30.3	9621	26.6
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1070490	-43005	-4.3	221974	22.3	78298	3.5	102599	10.0	46565	4.5
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1062011	-39413	-4.0	217340	21.9	72270	3.3	98138	9.7	44198	4.4
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-556746	10329	0.5	-417732	-41.7	-355853	-35.6	-356819	-35.7	-291865	-29.2
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-565257	10460	-4.9	-406099	-40.6	-351198	-35.1	-351741	-35.2	-296646	-29.7
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4216469	-1626	-0.0	704378	24.7	626066	17.4	745711	26.6	663503	18.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26747	-	-	427	1.7	399	1.5	473	1.8	432	1.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रुतर देयता	1378342	1353501	-5443	-0.4	250542	23.7	-24841	-1.8	227442	21.0	44164	3.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर										
	1	2	3	4										
	5	6	7	8				9	10					
8 मार्च 2021	-	471854	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-471854
9 मार्च 2021	-	496861	-	-	0	25	-	-	-	-	-	-	-	-496836
10 मार्च 2021	-	453691	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-453691
11 मार्च 2021	-	36932	-	-	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-36113
12 मार्च 2021	-	476649	-	200007	23	-250	-	10895	20330	-	-	-	-	-667448
13 मार्च 2021	-	6600	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-6597
14 मार्च 2021	-	1557	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-1479

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

**'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2020		2021		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	150.2	149.1	156.3	156.6	0.2	5.4	5.0
1.1 ग्रामीण	151.9	150.4	156.8	156.7	- 0.1	4.6	4.2
1.2 शहरी	148.2	147.7	155.8	156.5	0.4	6.2	6.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	118.2	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	123.4	122.2	125.9	127.3	1.1	5.7	4.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	147.2	142.8	143.9	145.4	1.0	5.8	1.8
3.2 ईंधन और बिजली	104.7	103.6	99.7	104.2	4.5	4.7	0.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	118.8	118.8	124.9	125.7	0.6	6.0	5.8

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
12 फरवरी 2021	58195	1879	3.62 - 4.77
26 फरवरी 2021	56390	4415	3.34 - 5.12

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
15 फरवरी 2021	399404	88216	3.22 - 13.52
28 फरवरी 2021	390853	69500	3.10 - 12.60

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	13 मार्च 2020	5 मार्च 2021	12 मार्च 2021
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	28364	12704	14992
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	824	3928	1204
3 सीबीएलओ#	292617	634152	457326
4 बाजार रेपो	255973	444238	315683
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	100	2620	9260

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

12 मार्च 2021 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2829	19630	37566	123240
182-दिवसीय	55695	31599	803	137739
364-दिवसीय	126917	158925	18515	471739
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (12 मार्च 2021 तक)	2019 - 20 (13 मार्च 2020 तक)	2019-20	2020 - 21 (12 मार्च 2021 तक)	2019 - 20 (13 मार्च 2020 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1313091	710000	710000	1085881	473972	473972
2. राज्य सरकारें	736773	567465	634521	605900	429494	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।